



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7—मार्च 13, 2009 (फाल्गुन 16, 1930)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7—MARCH 13, 2009 (PHALGUNA 16, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. 12022/1/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री सुजान आर. चिनाँय (भारतीय विदेश सेवा : 1981) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एनएससीएस), में संयुक्त सचिव के पद पर संशोधित वेतन संरचना के वेतनमान 37,400-67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 10,000/- रु. (वेतन बैंड-4) में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 04 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से, आरम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए, एनएससीएस के नियमों के अनुसार, जो 8 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हों, नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, उप सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 फरवरी 2009

सं. 193/22/10/2008 (बीआरएम)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव,

श्री बी. आर. मोंगा, दिनांक 31.01.2009 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

एस. आर. कार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2009

सं. ए-12026/6/2004-प्रशा.-I (वि.वि.)--सचिव, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, श्री नरेन्द्र सिंह पुरिया, लेखाकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को उक्त मंत्रालय के विधायी विभाग में दिनांक 12 फरवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, रुपए 9,300-34,800 के वेतन बैंड + रुपए 4,800/- के ग्रेड वेतन में प्रतिनियुक्ति आधार पर रोकड़ अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री पुरिया विधायी विभाग (मुख्य) के रोकड़ अनुभाग के काम का पर्यवेक्षण करेंगे और विधायी विभाग (मुख्य) के स्थापना के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे।

एल. आर. राव, उप सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2009

सं. ए-12025(1)/3/2004-प्रशा.-I (वि.वि.)--विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने, श्री रामावतार यादव को सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) के पद से दिया गया तकनीकी त्याग-पत्र दिनांक 02 मार्च, 2009 को पूर्वाह्न से स्वीकार कर लिया है। श्री रामावतार यादव को कथित दिनांक से, अपने मूल विभाग, अर्थात् अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

2. विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में दिनांक 16 नवम्बर, 2007 से 1 मार्च, 2009 तक सहायक विधायी परामर्शी के पद पर श्री रामावतार यादव द्वारा की गई अस्थायी सेवा, उन्हें इस विभाग में इस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल. आर. राव, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2009

सं. ए-32013/02/2005-प्रशा.-IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जनवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/9/2008-सी.एस. I (डी.) के अनुसरण में, श्री सी. ओ. राजन (सी.एस.एल. सं. 3869) (वर्तमान में विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में स्थानापन्न रूप से उप सचिव के पद पर कार्यरत) को वर्ष 2006 की चयन सूची के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (उप सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 24 फरवरी 2009

सं. ए-32013/1/2008-प्रशा.-IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जनवरी, 2009 के का.ज्ञा. सं. 5/6/2008-सी.एस. II के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव श्री बी. एस. नेगी को वर्ष 2007 की चयन सूची में शामिल किए जाने पर विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, भारत के विधि आयोग में वेतन बैंड-3 रु. 15,600-39,100 व ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में दिनांक 16.02.2009 (पूर्वाह्न) से चरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2009

सं. आई-14011/7/2008-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 09.02.2009 को चयन समिति की दिनांक 24.12.2008 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2008 की उस चयन सूची को अनुमोदित

कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक संवर्ग में वर्ष 2008 में आठ मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु कर्नाटक पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2008

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	डॉ. बी. ए. महेश	29.12.1958
2.	डॉ. डी. सी. राजप्पा	01.06.1959
3.	के. पी. पुत्तुस्वामी (एस.सी.)	09.05.1955
4.	डी. प्रकाश	20.07.1956
5.	टी. आर. सुरेश	12.07.1960
6.	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	06.07.1954
7.	एम. एन. नागराज (एस.टी.)	20.05.1960
8.	एस. बी. बिसनाली (एस.सी.)	01.06.1954

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/7/2008-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत राजस्थान संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2008

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	डॉ. बी. ए. महेश	29.12.1958
2.	डॉ. डी. सी. राजप्पा	01.06.1959
3.	के. पी. पुत्तुस्वामी	09.05.1955
4.	डी. प्रकाश	20.07.1956
5.	टी. आर. सुरेश	12.07.1960
6.	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	06.07.1954
7.	एम. एन. नागराज	20.05.1960
8.	एस. बी. बिसनाली	01.06.1954

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 23 फरवरी 2009

सं. आई-18012/6/2008-आईपीएस-1--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के विनियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति महाराष्ट्र संवर्ग को आबंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
(सर्वश्री)		
1.	एच. बी. देशभरतार	25.05.2005
2.	सी. जी. कुम्भार	25.05.2005
3.	ए. एस. देशभरतार	25.05.2005
4.	एस. आर. पारसकर	25.05.2005

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/7/2008-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2008

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	राकेश प्रताप सिंह	01.07.1958
2.	नवल सिंह रघुवंशी	07.09.1958

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/5/2008-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 05.02.2009 को चयन समिति की दिनांक 15.12.2008 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2008 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में वर्ष

2008 में दो मौलिक शक्तियों को भरे जाने हेतु मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2008

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	राकेश प्रताप सिंह	01.07.1958
2.	नवल सिंह रघुवंशी	07.09.1958

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2009

सं. आई-14011/7/2008-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत गुजरात संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2008

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
(सर्वश्री)		
1.	एस. के. गाधवी (ओबीसी)	29.07.1961
2.	एच. आर. मुलियाना (एसटी)	10.08.1961
3.	डी. एच. परमार (एससी)	01.06.1965

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/5/2008-आईपीएस-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 16.02.2009 को चयन समिति की दिनांक 01.12.2008 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2008 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के गुजरात संवर्ग में वर्ष 2008

में चार मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु गुजरात पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

चयन सूची-2008

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	एस. के. गाधवी (ओबीसी)	29.07.1961
2.	एच. आर. मुलियाना (एसटी)	10.08.1961
3.*	एन. के. अमीन (एससी)	21.08.1958
4.	डी. एच. परमार (एससी)	01.06.1965

* क्रम संख्या 3 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध अपराधिक मामले के निपटान किये जाने एवं उन्हें राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के अध्यधीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 फरवरी 2009

शुद्धि-पत्र

सं. J-18011/8/2008-आई पी एस-IV--इस मंत्रालय की दिनांक 13 फरवरी, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित शुद्धियाँ की जाती हैं :—

(क) अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तरण में क्रम सं. 4 पर उल्लिखित श्री नचिकेता झा, आई पी एस (उत्तर प्रदेश : 2003) के नाम की वर्तनी को शुद्ध करके नचिकेता झा (Nachiuketa Jha) के स्थान पर नचिकेता झा (Nachiketa Jha) पढ़ा जाए।

(ख) अधिसूचना के अंग्रेजी और हिंदी दोनों रूपान्तरणों में श्री नचिकेता झा, आई पी एस (उत्तर प्रदेश : 2003) को भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करने की तारीख को 01.09.2005 के स्थान पर 22.12.2005 पढ़ा जाए।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2009

सं. ए-32013/02/2006-प्रशा. 1 (खण्ड-V)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी श्री ओ. पी. शर्मा को चयन ग्रेड (उप सचिव) के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में नियमित आधार पर दिनांक 30.1.2009 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2009

सं. 20/जी/3023-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री दिलीप राज सिंह चौधरी, भा.प्र.से. (म.प्र. : 77) को गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में

दिनांक 16 फरवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से-अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2009

सं. 14015/12/2007-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति, केरल की राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री के. गोपालकृष्ण भट को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2007 की रिक्तियों पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उन्हें केरल संवर्ग में आबंटित करते हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2009

सं. 14013/02/2009-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्थायी करते हैं :—

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री गौरी शंकर चट्टोपाध्याय	1995	29.12.2006
2.	श्री असीम कुमार राय चौधरी	1995	02.02.2007
3.	श्री सुभाष रंजन विश्वास	1997	24.10.2008
4.	श्री आशीष कुमार ठाकुर	1997	24.10.2008
5.	श्री उत्पल मुखर्जी	1997	24.10.2008
6.	श्री उत्पल कुमार भट्टाचार्या	1997	24.10.2008
7.	श्री सुषित कुमार विश्वास	1997	24.10.2008
8.	श्री परमल कुमार सामन्ता	1997	24.10.2008
9.	श्री स्वप्न कुमार चन्दा	1997	24.10.2008
10.	श्री गौतम घोष	1997	24.10.2008
11.	श्री देवाशीष बन्धोपाध्याय	1997	24.10.2008

1	2	3	4
12.	श्री मोहम्मद अली मंडल	1997	24.10.2008
13.	श्री अमल राय चौधरी	1997	24.10.2008
14.	श्री प्रशान्त भट्टाचार्या	1997	24.10.2008
15.	श्री भारत चन्द्रा साहा	1997	24.10.2008
16.	श्री आशीष कुमार घोष	1997	24.10.2008

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2009

सं. 24012/24/2008-स्थापना(ख)--राष्ट्रपति, श्रीमती आर. भाग्यदेवी राजेन्द्रन, आई.आर.एस (सी एण्ड सीई : 1989) अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, कोयम्बटूर को दिनांक 06 फरवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कर्मचारी चयन आयोग (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील कुमार अरोड़ा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2009

सं. 200 : (फा. सं. ए-32014/02/2008-प्रशा. 1क)--व्यय विभाग के संवर्ग में प्रशासनिक अनुभाग के दिनांक 17.12.2008 के कार्यालय आदेश सं. ए-32022/2/2004 सी ए एस के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री आर. के. मसन्द, तदर्थ वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को दिनांक 17.12.2008 से नियमित आधार पर सी एस एस एस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (पूर्व संशोधित 12,000--16,000/- रुपये) के रूप में नियुक्त करते हैं और वर्ष 2005 की चयन सूची में क्रम सं. 2 पर उनका स्थान निश्चित किया जाता है।

2. उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प दे दें।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. 1 (फा. सं. 16/71/2008-एडी.ईडी)--वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचनाओं के अनुक्रम में, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 49 की उप-धारा 5 के खण्ड (क) के संदर्भ में, निम्नलिखित अधिकारियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (निरस्त अधिनियम) के प्रावधानों [धारा 19 की उप धारा (1) के खंड (क) और धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (क), धारा 13 को छोड़कर] अथवा इनके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश अथवा पारित किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के मामलों में, उक्त विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

1999 की धारा 49 की उप-धारा (4) के कारण, निरस्त किए गए अधिनियम की धारा 50 तथा धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक/सहायक निदेशक जैसा भी मामला हो, के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से न्याय निर्णयन करने की शक्तियां प्रदान कर दी गयी समझी जाएंगी :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	अधिसूचना की दिनांक और सं.	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5
(सर्वश्री)				
1.	संजय त्रिपाठी	उप निदेशक	सं. 1/2007 (फा. सं. 4/4/2007-एडीईडी) दिनांक 19.6.2007	14.3.2007
2.	आर. मोहनदोज	उप निदेशक	सं. 2/2007 (फा. सं. 4/3/2007-एडीईडी) दिनांक 3.8.2007	11.7.2007
3.	बी. नीराजा	उप निदेशक	सं. 6/2008 (फा. सं. 4/18/2008-एडीईडी) दिनांक 10.6.2008	15.5.2008 (अपराह्न)
4.	ए. के. शर्मा	उप निदेशक	सं. 11/2008 (फा. सं. 4/15/2007-एडीईडी) दिनांक 15.10.2008	27.11.2006 (अपराह्न)
5.	के. एस. अच्युता	उप निदेशक	सं. 11/2008 (फा. सं. 4/15/2007-एडीईडी) दिनांक 15.10.2008	10.11.2006 (अपराह्न)
6.	एस. के. पोहार	उप निदेशक	सं. 11/2008 (फा. सं. 4/15/2007-एडीईडी) दिनांक 15.10.2008	13.11.2006
7.	ए. के. मुरमु	उप निदेशक (तदर्थ)	सं. 12/2008 (फा. सं. 4/15/2007-एडीईडी) दिनांक 15.10.2008	4.10.2006
8.	एस. के. चंदोरकर	सहायक निदेशक	सं. 70 (फा. सं. ए-12026/4/2004-प्रशा. 1) दिनांक 22.6.2005	11.4.2005
9.	आर. डी. गांधी	सहायक निदेशक	सं. 70 (फा. सं. ए-12026/4/2004-प्रशा. 1) दिनांक 22.6.2005	16.3.2005
10.	एल. बी. चौकेकर	सहायक निदेशक	सं. 5/2007 (फा. सं. 4/17/2007-एडीईडी) दिनांक 21.2.2008	7.6.2007
11.	एस. सी. अदलखा	सहायक निदेशक	सं. 5/2007 (फा. सं. 4/17/2007-एडीईडी) दिनांक 21.2.2008	3.10.2007
12.	एम. जी. अत्री	सहायक निदेशक	सं. 5/2007 (फा. सं. 4/17/2007-एडीईडी) दिनांक 21.2.2008	7.6.2007
13.	आई. एम. भाटिया	सहायक निदेशक	सं. 5/2007 (फा. सं. 4/17/2007-एडीईडी) दिनांक 21.2.2008	7.6.2007 (अपराह्न)

1	2	3	4	5
14.	आर. के. दुबे	सहायक निदेशक	सं. 5/2007 (फा. सं. 4/17/2007-एडीईडी) दिनांक 21.2.2008	7.6.2007
15.	जी. सी. मंडल	सहायक निदेशक	सं. 5/2007 (फा. सं. 4/17/2007-एडीईडी) दिनांक 21.2.2008	15.6.2007
16.	एम. एस. गुप्ता	सहायक निदेशक	सं. 7/2008 (फा. सं. 5/1/2008-एडीईडी) दिनांक 16.9.2008	6.5.2008
17.	डी. मल्होत्रा	सहायक निदेशक	सं. 7/2008 (फा. सं. 5/1/2008-एडीईडी) दिनांक 16.9.2008	6.5.2008
18.	एन. मुथुचिंदरम	सहायक निदेशक	सं. 14/2008 (फा. सं. 4/12/2007-एडीईडी) (भाग) दिनांक 15.10.2008	10.4.2006
19.	शरद चौधरी	सहायक निदेशक	सं. 14/2008 (फा. सं. 4/12/2007-एडीईडी) (भाग) दिनांक 15.10.2008	20.7.2006
20.	आई. विक्रमन	सहायक निदेशक	सं. 14/2008 (फा. सं. 4/12/2007-एडीईडी) (भाग) दिनांक 15.10.2008	4.9.2006
21.	विनोद खोसला	सहायक निदेशक	सं. 14/2008 (फा. सं. 4/12/2007-एडीईडी) (भाग) दिनांक 15.10.2008	21.11.2007
22.	एल. वी. राव	सहायक निदेशक	सं. 14/2008 (फा. सं. 4/12/2007-एडीईडी) (भाग) दिनांक 15.10.2008	10.4.2008
23.	जे. के. जार्ज	सहायक निदेशक	सं. 7/2008 (फा. सं. 5/1/2008-एडीईडी) दिनांक 16.9.2008	6.5.2008 (अपराह्न)
24.	आर. सी. माधुर	सहायक निदेशक	सं. 7/2008 (फा. सं. 5/1/2008-एडीईडी) दिनांक 16.9.2008	6.5.2008
25.	बलविन्द्र सिंह	सहायक निदेशक (तदर्थ)	सं. 13/2008 (फा. सं. 4/29/2007-एडीईडी) (भाग) दिनांक 15.10.2008	25.1.2007
26.	बी. मणिकम	सहायक निदेशक (तदर्थ)	सं. 13/2008 (फा. सं. 4/29/2007-एडीईडी) (भाग) दिनांक 15.10.2008	26.7.2006

प्रमोद कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2009

सं. 1/2009 [फा. सं. ए-32012/4/2003-प्रशा.-II बी (भाग-II)]--
राष्ट्रपति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले एक स्वायत्तशासी संगठन सेन्ट्रल पेपर एंड पल्प रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक एवं निदेशक (कार्यवाहक) श्री टी. के. राय को 10.2.2009

से 3 वर्ष की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, दोनों में से जो पहले हो या आगामी आदेश तक के लिये केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सी आर सी एल में मानक शर्तों एवं दशाओं के आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर तथा 18,400-500-22,400/- रु. (संशोधित रूप में 37,400--67,009 ग्रेड पे 10,000/- के साथ) में निदेशक (आर एल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुषमा कटारिया, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2009

सं. ए-12011/2/2009-प्रशा.2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 30.1.09 के का.ज्ञा. सं. 4/9/2008-सीएस. I (डी) के तहत परिचालित वर्ष, 2006 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के चयन ग्रेड (उप सचिव) की प्रवर सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री प्राण कुमार शर्मा (सीएसएल सं. 3715), उप सचिव (सेवानिवृत्त) को 1 जुलाई, 2006 से और अगले आदेश तक नियमित आधार पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर सूची में श्री पी. के. शर्मा की पारस्परिक वरिष्ठता संबंधित चयन सूची में दिए गए क्रम सं. के अनुसार होगी, चाहे उनकी उस ग्रेड में नियुक्ति की वास्तविक तिथि जो भी हो।

बी. रामकुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/1/2009-प्रशा.2--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 14.08.08 के का.ज्ञा. सं. 7/5/2008-सीएस. I के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तारीख से और अगले आदेश तक 4,800/- रुपए, ग्रेड पे वेतन सहित वेतन/बैंड-2, 9,300-34,800/- रुपए तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

1. श्रीमती कृष्णा कपूर 22.01.2009 (पूर्वाह्न)

2. श्रीमती ई. कूजूर 12.02.2009 (पूर्वाह्न)

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपर्युक्त सहायकों को तदर्थ नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:--

(i) तदर्थ नियुक्त, कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, उन्हें अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने का या सीएसएस अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ii) यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के ज़रिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में

नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक चलती रहेगी। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर, (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2009

सं. ए-19011/3/2008-प्रशा.2--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक श्री गोविन्द मोहन, भा.प्र.से (सिक्किम : 89), को 19 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए अर्थात् 08.01.2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इसी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2009

सं. 5/1/2009-आईएफ. II--राष्ट्रपति, श्री एन. सी. गौड़, उप सचिव (तदर्थ), जो फिलहाल बीआईएफआर, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में तैनात हैं, का नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2009, के का. जा. सं. 4/4/2008-सीएस. I (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्ति के लिए वर्ष 2005 के लिए चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप, उन्हें 1 जुलाई 2005 से उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 2009

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) की ग्रेड "सी" आशुलिपिक श्रीमती एम. जयलक्ष्मी को 12 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर 9,300-34,800 रुपए + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-2 में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (आमेलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती एम. जयलक्ष्मी की तदर्थ नियुक्ति उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने के लिए अथवा सी.एस.एस.एस. के ग्रेड "ए तथा बी" (आमेलित) में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं देती

है। यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. पी.एफ.जी. (541)/96-प्रशा.-II--भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान अधिकारी श्री के. तिरुमलाईमुतु ने ऋण वसूली ट्रिब्यूनल-2 में वसूली अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति से कैंडर में वापसी और इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.2008 के समसंख्यक आदेश के अनुसरण में, दिनांक 22.12.2008 के पूर्वाह्न से कम्पनी रजिस्ट्रार, चेन्नई के कार्यालय में उप रजिस्ट्रार के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 609(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने श्री के. तिरुमलाईमुतु को दिनांक 22.12.2008 के पूर्वाह्न से कम्पनी रजिस्ट्रार, चेन्नई के कार्यालय में उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थापनापन रूप से नियुक्त किया है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. पी.एफ.जी. (689)/2009-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन के फलस्वरूप, श्री श्रीधर परमार्थी, को भारतीय कम्पनी विधि सेवा के वरिष्ठ समयमान 10,000-325-15,200/- रुपए (पूर्व संशोधित) में सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री श्रीधर परमार्थी ने प्रादेशिक निदेशक, कोलकाता के कार्यालय में दिनांक 31.12.2008 के पूर्वाह्न से उप-निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2. श्री श्रीधर परमार्थी की नियुक्ति अनंतिम है तथा यह श्री गुलाब चन्द यादव द्वारा दायर की गई ओ.ए. सं. 575/2007 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैंट), पटना पीठ के अंतिम निर्णय के अनुसार है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 फरवरी 2009

सं. ए-12011/3/2008-प्रशा.-I--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I अधिकारी सुश्री बिना रानी विज जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के एमआरटीपी आयोग में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.01.2009 के आदेश सं. 4/9/2008-सीएस-I(डी) के अनुसार वर्ष, 2006 के लिए सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में सम्मिलित हो गई है।

आर. सी. टली, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. ए-32014/2/2008-संवर्ग--राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नीचे बताए गए नियमित सहायकों को 06 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से 30 जून 2009 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

नाम	जन्म तिथि	चयन सूची वर्ष	श्रेणी	तैनाती का स्थान
(सर्वश्री)				
श्रीमती अनिल गुप्ता	20.03.1951	चयन सूची-1993 (वरीयता कोट)	सामान्य	पू.नि.म.नि.

2. यह तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 30.06.2009 तक या नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगी।
- यह तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त अधिकारियों को उक्त वर्ग में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- यह तदर्थ नियुक्ति, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता कोट या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की दशा में, उन्हें उस तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस तारीख को नियमित अधिकारी (नियमित अनुभाग अधिकारी) उपलब्ध हो जाएंगे अर्थात् जिस तारीख से वे (नियमित अनुभाग अधिकारी) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन्हें आवंटित संबंधित कैडर में कार्यभार संभाल लेंगे।

परमजीत सिंह, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2009

सं. 3/2009, फा. सं. 6/2399/2006/एच.आर.डी.1/496--इस कार्यालय की अधिसूचना सं. 3/2007 दिनांक 14.2.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री राकेश कुमार, सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार 4 सितम्बर, 2006 की पूर्वाह्न से इस महानिदेशालय के अधिकारियों की सूची में शामिल कर लिए गए थे जिस तारीख को उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मंसूरी में फाऊन्डेशन प्रशिक्षण (एफ सी) हेतु रिपोर्ट किया था। तथापि, 4.9.2006 के एफ सी

में रिपोर्ट करने से पहले, उन्होंने आदेश सं. पी 2(57)/पर्सनल/ए-4/98, दिनांक 30.8.2006 द्वारा राजस्थान सरकार, जयपुर के कार्यमुक्ति आदेश के अनुसार 3.9.2006 को एक दिन के लिए ड्यूटी ज्वाइन की थी। तदनुसार, श्री राकेश कुमार को अब 3.9.2006 की पूर्वाह्न से विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों की सूची में शामिल किया जाता है।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक
विदेश व्यापार

दिनांक 23 फरवरी 2009

सं. 6/2009, फा. सं. 6/2409/2006/एच.आर.डी.1/585--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की टिप्पणी सं. 10/23/2008-ई.ओ. (एस.एम.-I), दिनांक 20 फरवरी, 2009 के अनुसरण में जोनल संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, सी.एल.ए., नई दिल्ली के रूप में कार्य कर रहे श्री अमिताभ जैन, आई.ए.एस. (छत्तीसगढ़ : 89) ने 20 फरवरी, 2009 (अपराह्न) से, रु. 37,400-67,000/- (पी.बी.-4) के वेतन बैंड में, ग्रेड वेतन रु. 10,000/- में, 27 अगस्त, 2011 तक अर्थात् उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हों, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार (संयुक्त सचिव स्तर पर) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक
विदेश व्यापार

दिनांक 24 फरवरी 2009

सं. 3/2009, फा. सं. 6/1275/79/एच.आर.डी.1/609--इस महानिदेशालय में भारतीय व्यापार सेवा के श्री एस. के. प्रसाद, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार का दिनांक 18.2.2009 को देहावसान हो गया है।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक
विदेश व्यापार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 फरवरी 2009

सं. ए-32013/1/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर श्री एम. पी. फुलझेले की तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 16.11.2008 (पूर्वा.) से दिनांक 28.02.2009 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

जी. एस. बसराँ, उप सचिव

सं. ए-32013/1/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सलाहकार के पद पर श्री आर. एल. मीणा की तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 18.01.2009 से दिनांक 31.07.2009 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

जी. एस. बसराँ, उप सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2009

विषय : श्री राजेन्द्र कुमार, आई आर एस (सी एंड सी ई : 1994),
उप सचिव की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

सं. ए-42011/22/2006-प्रशासन- इस विभाग की दिनांक 4 जनवरी, 2008 को समसंख्यक अधिसूचना तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी कार्यालय के दिनांक 30 जनवरी, 2009 के का.ज्ञा. सं. 13/3/2007-ईओएमएम (1) के क्रम में राष्ट्रपति, श्री राजेन्द्र कुमार, आईआरएस (सी एंड सी ई : 1994), उप सचिव के व्यक्तिगत रूप से दिनांक 30.01.2009 (पूर्वाह्न) से लोक उद्यम विभाग में उनके कार्यकाल की शेष अवधि, जो अब 30.12.2012 तक होगी, अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

जी. एस. बसरी, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2009

सं. ए-32013/2/2008-स्था.-1-राष्ट्रपति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित उप-सचिव को उनके समक्ष दर्शाई गई तारीख से नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं :-

अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
चयन सूची 2006	
श्री एम. जयरामन	1.7.2006

शिव कुमार गंडोत्रा, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. पृविमं/18/09/2008-स्था.-राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक 'डी' को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से लचीली पूरक योजना (एफ.सी.एस.) के तहत 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान (संशोधन पूर्व) तथा पे-बैंड-4, 37,400-67,000/- रु. (संशोधित) में 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक 'ई' के पद पर पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई	पदोन्नति की तारीख
1.	डॉ. प्रवीण कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	01.01.2009
2.	श्री रणजीत सिंह	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	01.01.2009
3.	श्री साजी मोहन दास	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	01.01.2009
4.	श्री जंग बहादुर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	01.07.2009
5.	श्री ए. बी. चौधरी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	01.07.2009

टी. आर. गिल, उप सचिव

सं. पृविमं/18/09/2008-स्था.-राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक 'ई' को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से लचीली पूरक योजना (एफ.सी.एस.) के तहत 15,400-450-20,000/- रु. के वेतनमान (संशोधन पूर्व) तथा पे-बैंड-4, 37,400-67,000/- रु. (संशोधित) में 8,900/- रु. के ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई	पदोन्नति की तारीख
1.	डॉ. बी. एन. संजीवन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	01.01.2009
2.	डॉ. के. सोमासुंदर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	01.01.2009
3.	डॉ. जी. ए. रामदास	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	01.01.2009
4.	श्री पी. मादेश्वरन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	01.07.2009
5.	श्री गोपाल अयंगर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	01.07.2009

टी. आर. गिल, उप सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जनवरी 2009

सं. पृविमं/18/09/2007-स्था.-राष्ट्रपति, सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'एफ' (16,400-450-20,000/- रु.) (संशोधन पूर्व) को सुनम्भ अनुपूरक योजना (एफ.सी.एस.) के अंतर्गत स्वस्थाने आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से अगले आदेशों तक वैज्ञानिक 'जी' (18,400-500-22,400/- रु.) (संशोधन पूर्व) के ग्रेड में पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	प्रभावी तिथि
1.	डॉ. पी. सी. एस. देवरा	12.01.2009
2.	डॉ. एस. राजन	12.01.2009

संदेश सक्सेना, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 फरवरी 2009

सं. ए-12026/1/2008-सी.पी.डब्ल्यू.-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 29 जनवरी, 2009 के सम संख्यक अधिसूचना में डा. सन्त प्रसाद गौतम ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के अध्यक्ष का पदभार दिनांक 2.2.2009 (पूर्वाह्न) से ग्रहण कर लिया है।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2009

सं. ए-12025/46/2006-सी.एच.एस.-III-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. मनीषा को 15.11.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री-रोग विज्ञान में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/32/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. देवेन्द्र कुमार को 29.1.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री-रोग विज्ञान में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/32/207-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. रचना अग्रवाल को 26.6.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री-रोग विज्ञान में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/32/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. सीमा सिंघल को 10.5.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री-रोग विज्ञान में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. 32011/9/2008-स्था.-II--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस), श्री आर. के. तिवारी को दिनांक 28 जनवरी, 2009 से अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियमित प्रोन्नति आधार पर इस विभाग में पूर्व-संशोधित वेतनमान 12,000-375-16,500/- रु. (संशोधित वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7,600/-रु.) में उपायुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. ए-19011/3/2006-स्थापना--रक्षा मंत्रालय में निदेशक के तौर पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री अनिल बहुगुणा, निदेशक, जो पंचायती राज मंत्रालय में अनिवार्य प्रतीक्षा (कंपल्सरी वेट) पर हैं, को 16 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से मंत्रालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल. हौकिप, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2009

सं. ए-12023/2/2006-स्था.--राष्ट्रपति, श्री ई. गोमती नयगम को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के प्रथम निजी सहायक के रूप में वेतन बैंड-2, 9,300-34,800/- रुपए तथा ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए में दिनांक 1.12.2008 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती है।

2. श्री ई. गोमती नयगम की नियुक्ति मंत्री के कार्यकाल तक के लिए सहयोजन आधार पर प्रतिनियुक्ति पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए है।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2009

सं. ए 12023/2/2006-स्था.--राष्ट्रपति, श्री वी. सी. बर्दे को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में वेतन बैंड-2, 9,300-34,800/- रुपए तथा ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए में दिनांक 1.10.2008 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती है।

2. श्री वी. सी. बर्दे की नियुक्ति मंत्री के कार्यकाल तक के लिए सहयोजन आधार पर प्रतिनियुक्ति पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए है।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 फरवरी 2009

सं. पीएफ/2165/एनआईसी/2008-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री क्रांति कुमार पांडे, कर्मचारी कोड सं. 2165 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, बिहार राज्य एकक, पटना से वैज्ञानिक "सी" के पद से त्याग-पत्र दिनांक 16 अगस्त, 1997 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. ई(जी.पी.)2007/3/16--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के जन संपर्क विभाग के निम्नलिखित ग्रुप बी अधिकारी को 06.01.2009 से नियमित आधार पर ग्रुप ए/वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2008-09 के लिए पैनल

श्री एन. वेनेगोपाल (अ.जा.) (दक्षिण रेलवे में कार्यरत)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव

सं. ई(जी.पी.)2006/3/7--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के भंडार विभाग के निम्नलिखित 17 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 24.12.2008 से भारतीय रेल भंडार सेवा (आई.आर.एस.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं :--

2007-08 के लिए पैनल

मध्य रेलवे

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

पी. जी. पाटिल

पूर्व तट रेलवे

आर. के. सेठी (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

उत्तर मध्य रेलवे

ऐवज़ सिंह

पूर्वोत्तर रेलवे

1. जे. बी. सिंह

2. आर. एन. सिन्हा (डी.रे.का. के)

उत्तर रेलवे

1. डी. के. किंगरा

2. बिनोद कुमार (डी.आ.का. के)

3. अनिल कुमार सक्सेना

उत्तर पश्चिम रेलवे

मान सिंह भीना (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण पूर्व रेलवे

जे. एन. हंसदा (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण रेलवे

1. श्रीमती अलीयम्मा हेजाकियल (अ.ज.जा.)

2. एम. मुरलीधरन

3. आर. कुट्टी कृष्ण (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

4. एस. ज्ञाननादुराई (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

5. श्रीमती रानी बी. (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

पश्चिम रेलवे

1. बी. टी. लालगे

2. महेश जेटमलानी

के. बी. एल. मित्तल, सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2009

सं. ई(जी.पी.)2006/3/7--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के भंडार विभाग के निम्नलिखित 10 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 24.12.2008 से भारतीय रेल भंडार सेवा (आई.आर.एस.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं :--

2007-08 के लिए पैनल

मध्य रेलवे

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

1. पी. के. द्विवेदी

2. मो. अयूब

पूर्व रेलवे

1. एस. दासगुप्ता

2. ए. के. नन्दी

3. डी. एन. पाण्डे

4. एस. डे

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

1. अमीन अहमद

2. एस. सैकिया

3. एन. एन. कलिता

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ए. नारायण नायक (अ.ज.जा.)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2008

सं. 7/2008 फा. सं. 2/7/20206-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री गया प्रसाद, आईएसएस (95) को 14 फरवरी, 2008 के अपराह्न से चार वर्ष के लिए अथवा जब वह राज्य मंत्री (जल संसाधन) के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्य करना बंद कर दें अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 12,000--16500/- रु. के वेतनमान में उप सचिव के स्तर पर माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. ए732015/2/2008-न.ग्रा.नि.सं./प्रशा. 111/यू.डी.-1--सक्षम अधिकारी श्री हरि लाल, आशुलिपिक श्रेणी-1, नगर एवं ग्राम नियोजन

संवत्स की दिनांक 28.1.2009 से और अगले आदेशों तक 6,500-200-10,500/- रुपये के अंशोक्त मूल वेतनमान (अथ 9,300-34,800 रु. के वेतन बैंड - 4,200 रुपये के ग्रेड वेतन) में आए एवं ग्राम नियोजन संगठन में नियमित आधार पर प्रोपेड वैयक्तिक पदाधिक (बी.सी.एस. ग्रुप 'बी' राजपत्रिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

कै. जी. माहन्ता, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. ए-19011/01/09-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री गौतम राय, सी पी ई एस (87) की दिनांक 30.01.2009 की अपराह्न से 5 वर्ष के सामान्य

कार्यकाल के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्रम और रोजगार मंत्रालय में नियुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2009

सं. ए-3501/01/2005-प्रशा. 1 (पार्ट)/खण्ड-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय परिवर्तन सेवा समिति की ओर से, वरिष्ठ भाग, अनुभाग अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 02.02.2009 (पूर्वा.) से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर 15,600-39,100/- रुपये के वेतन बैंड (पीबी-3) जभा 6,600/- रुपये ग्रेड पे में श्रम और रोजगार मंत्रालय में वरिष्ठ मूल्यांकन के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 13th February 2009

No. A-12022/1/2008-Ad.(1)—The President is pleased to appoint Shri Sujan R. Chinoy (IFS : 1981) as Joint Secretary in the National Security Council Secretariat (NSCS), in the Revised Pay Structure of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- (Pay Band-4), on deputation basis with effect from the forenoon of 4th February 2009, initially for a period of three years, extendable upto 8 years as per NSCS rules or until further orders whichever is earlier.

P. K. ROY, Dy. Secy.

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 18th February 2009

No. 193/22/10/2008(BRM)/4217—On attaining the age of superannuation Shri B. R. Monga, Sr. Principal Private Secretary in the Election Commission of India, retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2009 (A/N).

S. R. KAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 12th February 2009

No. A-12026/6/2004-Admn. I (L.D.)—The Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice is pleased to appoint Shri Narinder Singh Puria, Accountant in the Department of Legal Affairs of the Ministry of Law and Justice to the post of Cash Officer in the Legislative Department of the said Ministry on deputation basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- for initial period of one year with effect from the 12th February, 2009 (Forenoon) and until further orders.

2. Shri Puria will supervise the work of Cash Section of the Legislative Department (Main) and look after the duties of the Drawing and Disbursing Officer in respect of the Establishment of the Legislative Department (Main).

L. R. RAO, Dy. Secy.

The 19th February 2009

No. A-12025 (i)/3/2004-Admn. I (L.D.)—The Competent Authority has accepted the technical resignation tendered by Shri Ramawtar Yadav From the post of Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect the forenoon of 2nd March, 2009. Shri Ramawtar Yadav Stands Repatriated to his parent Department, i.e., the Office of Director of Prosecution, Government of NCT of Delhi with effect from the said date.

2. The temporary service of Shri Ramawtar Yadav as Assistant Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice for the period

from 16th November 2007 to 1st March, 2009 does not entail him to hold lien in the post in this Department.

L. R. RAO, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 18th February 2009

No. A-32013/2/2005-Admn.IV(LA)—In pursuance of Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 4/9/2008-C.S.I.(D) dated 30th January, 2009, the President is pleased to appoint Shri C. O. Rajan, (CSL No. 3869) (presently officiating as Deputy Secretary in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs) to the Selection Grade of the Central Secretariat Service (Deputy Secretary) against the Select List for the Year- 2006.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

The 24th February 2009

No. A-32013/1/2008-Admn.IV(LA)—In pursuance of DoPT's O. M. No.5/6/2008-C.S.II dated 21st January, 2009, the President is pleased to appoint Shri B. S. Negi, PPS of CSSS cadre as Sr. PPS on his inclusion in the Select List for the year 2007 in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs at Law Commission of India in the PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 16.02.2009(F/N).

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th February 2009

No. I-14011/7/2008-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 09.02.2009, approved the Select List of 2008, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 24.12.2008, containing the names of the following State Police Service Officers of Karnataka, towards filling up eight substantive vacancies in the Karnataka Cadre of IPS during 2008 :—

SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Dr. B. A. Mahesh	29-12-1958
2.	Dr. D. C. Rajappa	01-06-1959
3.	K. P. Puttaswamy (SC)	09-05-1955
4.	D. Prakash	20-07-1956
5.	T. R. Suresh	12-07-1960
6.	Isvarachandra Vidyasagar	06-07-1954
7.	M. N. Nagaraj (ST)	20-05-1960
8.	S. B. Bisanalli (SC)	01-06-1954

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/7/2008-IPS.I (II) : In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Karnataka Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Karnataka under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Dr. B. A. Mahesh	29-12-1958
2.	Dr. D. C. Rajappa	01-06-1959
3.	K. P. Puttaswamy	09-05-1955
4.	D. Prakash	20-07-1956
5.	T. R. Suresh	12-07-1960
6.	Iswarachandra Vidyasagar	06-07-1954
7.	M. N. Nagaraj	20-05-1960
8.	S. B. Bisanalli	01-06-1954

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 23rd February 2009

No. I-18012/6/2008-IPS.I—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the cadre of Maharashtra in the India Police Service, with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	H. V. Deshbhratar	25-05-2005
2.	C. G. Kumbhar	25-05-2005
3.	A. S. Deshbhratar	25-05-2005
4.	S. R. Paraskar	25-05-2005

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/5/2008-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Madhya Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to

allocate them to the cadre of Madhya Pradesh under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri Rakesh Pratap Singh	01-07-1958
2.	Shri Naval Singh Raghuwanshi	07-09-1958

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/5/2008-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 05.02.2009, approved the Select List of 2008, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 15.12.2008, containing the names of the following State Police Service Officers of Madhya Pradesh, towards filling up of two substantive vacancies for Select List of 2008 in Madhya Pradesh Cadre of IPS :—

SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri Rakesh Pratap Singh	01-07-1958
2.	Shri Naval Singh Raghuwanshi	07-09-1958

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 25th February 2009

No. I-14011/15/2008-IPS.I (II) : In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Gujarat Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Gujarat under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri S. K. Gadhvi (OBC)	29-07-1961
2.	Shri H. R. Muliana (ST)	10-08-1961
3.	Shri D. H. Parmar (SC)	01-06-1965

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/15/2008-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 16.02.2009, approved the Select List of 2008, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 01.12.2008, containing the names of the following State Police Service Officers of Gujarat, towards filling up of four substantive vacancies during 2008 in the IPS Gujarat Cadre :—

SELECT LIST-2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri S. K. Gadhvi (OBC)	29-07-1961
2.	Shri H. R. Muliana (ST)	10-08-1961
3.*	Shri N. K. Amin (SC)	21-08-1958
4.	Shri D. H. Parmar (SC)	01-06-1965

* The Officer at Sl. No. 3 has been included provisionally subject to clearance of Criminal Proceedings pending against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi-110001, the 20th February 2009

CORRIGENDUM

No. I-18011/8/2008-IPS. IV—In this Ministry's notification of even number dated the 13th February, 2009, the following corrections are carried out :—

- In the English version of the notification, the spelling in the name of Shri Nachiketa Jha, IPS (UP : 2003), as Serial No. 4, may be corrected as Nachiketa Jha instead of Nachiuketa Jha.
- In both English and Hindi versions of the notification, the date of confirmation of Shri Nachiketa Jha, IPS (UP : 2003), in the Indian Police Service may be read as 22-12-2005 instead of 01-09-2005.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

New Delhi, the 18th February 2009

No. A-32013/02/2006-Ad.I(Pt.V)—The President is pleased to appoint Shri O. P. Sharma, Grade I Officers of the Central Secretariat Service in the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis with effect from 30-01-2009 (FN).

J. B. SHARMA, Under Secy.

The 19th February 2009

No.20/G/3023-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Dileep Raj Singh Chaudhary, IAS (MP : 77) as Additional Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from 16th February, 2009 (forenoon) until further orders.

J. B. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 19th February 2009

No. 14015/12/2007-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri K. Gopalakrishna Bhat, a member of the State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2007 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Kerala Cadre, under sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 23rd February 2009

No. 14013/2/2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of West Bengal, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Gouri Sankar Chattopadhyay	1995	29-12-2006
2.	Shri Asim Kumar Roy Chowdhury	1995	02-02-2007
3.	Shri Subhash Ranjan Biswas	1997	24-10-2008
4.	Shri Ashis Kumar Thakur	1997	24-10-2008
5.	Shri Utpal Mukherjee	1997	24-10-2008
6.	Shri Utpal Kumar Bhattacharya	1997	24-10-2008
7.	Shri Susit Kumar Biswas	1997	24-10-2008
8.	Shri Pramal Kumar Samanta	1997	24-10-2008
9.	Shri Swapan Kumar Chanda	1997	24-10-2008
10.	Shri Gautam Ghosh	1997	24-10-2008
11.	Shri Debashis Bandopadhyay	1997	24-10-2008
12.	Md. Ali Mondal	1997	24-10-2008
13.	Shri Amal Roy Chowdhury	1997	24-10-2008
14.	Shri Prasanta Bhattacharya	1997	24-10-2008
15.	Shri Bharat Chandra Saha	1997	24-10-2008
16.	Shri Asis Kumar Ghosh	1997	24-10-2008

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 23rd February 2009

No. 24012/24/2008-Estt (B)—The President is pleased to appoint Smt. R. Bhagyadevi Rajendran, IRS (C&CE :1989), Additional Commissioner, Central Excise, Coimbatore as Regional Director, Staff Selection Commission (Southern Region), Chennai with effect from 6th February, 2009 (Forenoon) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th December 2008

(F.No.A.32014/2/2008-Ad.IA) -In pursuance to Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O.M. No.A-32022/2/2004-CAS dated 17-12-2008, the President is pleased to appoint Shri R. K. Masand, ad hoc Sr. PPS on regular basis as Senior Principal Private Secretary of CSSS (Rs. 12,000—16,500/- pre-revised) w.e.f. 17-12-2008 and is placed at Sl. No.2 against the Select List Year 2005.

2. He is advised to exercise option for fixation of pay within one month.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

New Delhi, the 2nd February 2009

No. 1 (F.No.16/71/2008-Ad.ED)—In continuation of the Ministry of Finance, Department of Revenue's Notifications, details of which are given below, and with reference to clause (a) of sub-section 5 of section 49 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the following officers are deemed to have been empowered to adjudicate cases of contravention of any of the provisions [other than section 13, clause (a) of sub-section (1) of section 18, section 18A and clause (a) of sub-section (1) of section 19] of the foreign Exchange Regulation Act, 1973 (the repealed Act) or of any rule, direction or order made thereunder in exercise of their powers under Sections 50 and 51 of the repealed Act by virtue of sub-section (4) of Section 49 of the said Foreign Exchange Management Act, 1999, from the date of their appointment as Deputy Director/Assistant Director, as the case may be, in the Directorate of Enforcement :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	No. and date of Notification	Date of appointment
1	2	3	4	5
	S/Shri/Smt.			
1.	Sanjay Tripathi	Dy. Dir.	No.1/2007 (F.No.4/4/2007-Ad.ED) dated 19-06-2007	14-03-2007
2.	R. Mohandoss	Dy. Dir.	No.2/2007 (F.No.4/3/2007-Ad.ED) dated 03-08-2007	11-07-2007

1	2	3	4	5
	S/Shri/Smt.			
3.	V. Neeraja	Dy. Dir.	No.6/2008 (F.No.4/18/2008-Ad.ED) dated 10-06-2008	15-05-2008 (AN)
4.	A. K. Sharma	Dy. Dir.	No.11/2008 (F.No.4/15/2007-Ad.ED) dated 15-10-2008	27-11-2006 (AN)
5.	K. S. Achutha	Dy. Dir.	No.11/2008 (F.No.4/15/2007-Ad.ED) dated 15-10-2008	10-11-2006 (AN)
6.	S. K. Poddar	Dy. Dir.	No.11/2008 (F.No.4/15/2007-Ad.ED) dated 15-10-2008	13-11-2006
7.	A. K. Murmu	Dy. Dir. (Ad-hoc)	No.12/2008 (F.No.4/15/2007-Ad.ED) dated 15-10-2008	04-10-2006
8.	S. K. Chandorkar	Asstt. Dir.	No.70(F.No.A-12026/4/2004-Ad.I) dated 22-06-2005	11-04-2005
9.	R. D. Gandhi	Asstt. Dir.	No.70(F.No.A-12026/4/2004-Ad.I) dated 22-06-2005	16-03-2005
10.	L. B. Chaukekar	Asstt. Dir.	No.5/2007 (F.No.4/17/2007-Ad.ED) dated 21-02-2008	07-06-2007
11.	S. C. Adlakha	Asstt. Dir.	No.5/2007 (F.No.4/17/2007-Ad.ED) dated 21-02-2008	03-10-2007
12.	M. G. Attri	Asstt. Dir.	No.5/2007 (F.No.4/17/2007-Ad.ED) dated 21-02-2008	07-06-2007
13.	I. M. Bhatia	Asstt. Dir.	No.5/2007 (F.No.4/17/2007-Ad.ED) dated 21-02-2008	07-06-2007 (AN)
14.	R. K. Dubey	Asstt. Dir.	No.5/2007 (F.No.4/17/2007-Ad.ED) dated 21-02-2008	07-06-2007
15.	G. C. Mondal	Asstt. Dir.	No.5/2007 (F.No.4/17/2007-Ad.ED) dated 21-02-2008	15-06-2007
16.	M. S. Gupta	Asstt. Dir.	No.7/2008 (F.No.5/1/2008-Ad.ED) dated 16-09-2008	06-05-2008
17.	D. Malhotra	Asstt. Dir.	No.7/2008 (F.No.5/1/2008-Ad.ED) dated 16-09-2008	06-05-2008

1	2	3	4	5
	S/Shri/Smt.			
18.	N. Mathuchidambaram	Asstt. Dir.	No.14/2008 (F.No.4/12/2007- Ad.ED) (Pt) dated 15-10-2008	10-04-2006
19.	Sharad Chaudhary	Asstt. Dir.	No.14/2008 (F.No.4/12/2007- Ad.ED) (Pt) dated 15-10-2008	20-07-2006
20.	I. Vikraman	Asstt. Dir.	No.14/2008 (F.No.4/12/2007- Ad.ED) (Pt) dated 15-10-2008	04-09-2006
21.	Vinod Khosla	Asstt. Dir.	No.14/2008 (F.No.4/12/2007- Ad.ED) (Pt) dated 15-10-2008	21-11-2007
22.	L. V. Rao	Asstt. Dir.	No.14/2008 (F.No.4/12/2007- Ad.ED) (Pt) dated 15-10-2008	10-04-2008
23.	J. K. George	Asstt. Dir.	No.7/2008 (F.No.5/1/2008- Ad.ED) dated 16-09-2008	06-05-2008 (AN)
24.	R. C. Mathur	Asstt. Dir.	No.7/2008 (F.No.5/1/2008- Ad.ED) dated 16-09-2008	06-05-2008
25.	Balwinder Singh	Asstt. Dir. (Ad-hoc)	No.13/2008 (F.No.4/29/2007- Ad.ED) (Pt) dated 15-10-2008	25-01-2007
26.	V. Manickam	Asstt. Dir. (Ad-hoc)	No.13/2008 (F.No.4/29/2007- Ad.ED) (Pt) dated 15-10-2008	26-07-2006

PRAMOD KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 24th February 2009

No. 1/2009 [F.No.A-32012/4/2003-Ad.II-B(Vol.II)]—The President is pleased to appoint Dr. T. K. Roy, 'Scientist F & Director (Officiating)' of Central Paper and Pulp Research Institute, an autonomous organization, under the Administrative control of Ministry of Commerce & Industry, as Director (RL), CRCL, New Delhi under Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue in the Pay Scale of Rs. 18,400-500-22,400/- (revised to Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/-) on deputation (Short Term Contract) basis on standard terms and conditions for a period of three years w.e.f. 10-02-2009 or till the date of his superannuation, whichever is earlier and until further orders.

SUSHMA KATARIA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 19th February 2009

No. A-12011/2/2009-Admn.II—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2006 circulated vide Department of Personnel & Training O.M.No.4/9/2008-CS.I(D) dated 30-01-2009, the President is pleased to appoint Shri Pran Kumar Sharma, (CSL No. 3715), Deputy Secretary (Retd.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July 2006 and until further orders.

2. The inter-se seniority of Shri P. K. Sharma in Selection Grade of CSS will follow the serial order given in the respective Select List, irrespective of his actual date of appointment to that Grade.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A-12011/1/2009-Admn.II—In pursuance of O.M.No.7/5/2008-CS.I, dated 14-08-2008 of Department of Personnel & Training, the President is pleased to appoint the following Assistants of CSS of Finance Cadre, as Section Officer on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. dates mentioned against their names and until further orders :—

1. Smt. Krishna Kapoor 22-01-2009(FN)
2. Smt. E. Kujjur 12-02-2009(FN)

2. The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) Ad-hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS.
- (ii) Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 20th February 2009

No. A-19011/3/2008-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Govind Mohan, IAS (SK:89), Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as

Joint Secretary in the same Department with effect from the forenoon of 19th February 2009 for the balance period of his central deputation tenure of five years i.e. upto 08-01-2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 24th February 2009

No. 5/1/2009-IF.II.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2005 for appointment to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, vide DoP&T's O.M.No.4/4/2008-CS.I(D) dated 7th January, 2009, the President is pleased to appoint Shri N. C. Gaur, Deputy Secretary (ad-hoc), presently posted in the BIFR, Department of Financial Services, Ministry of Finance to the post of Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) on regular basis w.e.f. 1st July, 2005.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 23rd February 2009

No. A-32014/1/2006-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. M. Jayalakshmi, Stenographer Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service to the post of Steno. Grade A&B (Merged) (designated as Private Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- Grade Pay on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 12th February, 2009.

2. The ad-hoc appointment of Smt. M. Jayalakshmi shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade "A&B" (Merged) of CSSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 5th January 2009

No.PFG(541)/96-Admn.II—On his repatriation from deputation as Recovery Officer in Debts Recovery Tribunal-2 and in pursuance to this Ministry's office order of even number dated 19-12-2008, Shri K. Thirumalaimuthu, a Senior Time Scale Officer of ICLS, has joined as Deputy Registrar in the Office of the Registrar of Companies, Chennai with effect from the forenoon of 22-12-2008.

2. In exercise of the powers conferred by Section 609 (2) of the Companies Act, 1956, the Central Government have

appointed Shri K. Thirumalaimuthu to officiate as Deputy Registrar in the Office of the Registrar of Companies, Chennai with effect from the forenoon of 22-12-2008.

J. S. GUPTA, Under Secy.

The 15th January 2009

No. PFG(689)/2009-Admn.II—On his selection through Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Sridhar Parmarthi to the Senior Time Scale of the Indian Corporate Law Service in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (pre-revised). Shri Sridhar Parmarthi has assumed the charge of the post of Deputy Director, in the Office of the Regional Director, Kolkata with effect from the forenoon of 31-12-2008.

2. The appointment of Shri Sridhar Parmarthi is provisional and subject to the final decision of the Hon'ble CAT, Patna Bench in the O.A.No.575/2007 filed by Shri Gulab Chand Yadav.

J. S. GUPTA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 11th February 2009.

No.A-12011/3/2008-Ad.I—In pursuance to Department of Personnel and Training Order No.4/9/2008-CS.I(D) dated 30-01-2009, Ms. Bina Rani Vij a Grade-I officer of Central Secretariat Service (CSS) presently working as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the MRTTP Commission of Ministry of Corporate Affairs has been included in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2006.

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY [DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)]

New Delhi, the 13th February 2009

No. A-32014/2/2008-Cadre—The President is pleased to appoint the undermentioned Regular Assistant of CSS Cadre of Department of Commerce (Supply Division) as Section Officer on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 6th January, 2009 upto 30-06-2009 or until further orders, whichever is earlier, in the CSS Cadre of Department of Commerce (Supply Division):—

Name	D.O.B.	SL Year	Cat.	Place of posting
Smt. Anil Gupta	20-03-1951	1993(SQ)	Genl.	DGS&D

2. The ad-hoc promotion/appointment would be subject to the following conditions :

- The period of ad-hoc promotion would be upto 30-06-2009 or till the regular Section Officers are

made available, or until further orders, whichever is earlier.

- (ii) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.
- (iii) Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers Grade are available either through Seniority quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre allotted to them by DoPT.

PARMJIT SINGH, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 17th February 2009

No. 3/2009, (F.No.6/2399/2006/HRD-1/496)—In partial modification to his office Notification No.3/2007, dated 14-02-2007, Shri Rakesh Kumar, Assistant Director General of Foreign Trade had been taken on the strength of this Directorate w.e.f. the forenoon of 4th September, 2006, the date on which he reported for Foundation Training (FC) at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. However, before joining FC on 04-09-2006, he had availed one day joining time on 03-09-2006 as per the relieving order of Government of Rajasthan, Jaipur vide their Order No. P.2(57)/Pers./A-4/98, dated 30-08-2006. Accordingly, Shri Rakesh Kumar has now been taken on the strength of DGFT w.e.f. the forenoon of 03-09-2006.

R. S. BISHT, Dy. Dir. General
of Foreign Trade

The 23rd February 2009

No. 6/2009 (F.No.6/2409/2006/HRD-1/585)—In Pursuance of the Department of Personnel & Training Note No.10/23/2008-EO(SM.I) dated 20th February, 2009, Shri Amitabh Jain, IAS (CG : 89), presently working as Zonal Joint Director General of Foreign Trade, CLA, New Delhi as assumed charge of the post of Additional Director General of Foreign Trade (Joint Secretary level) in the Pay Band of Rs. 37,400—76,000/- (PB-4), Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 20th February 2009 (AN), till 27th August 2011, i.e. the balance period of his central deputation or until further orders, whichever is earlier.

R. S. BISHT, Dy. Dir. General
of Foreign Trade

The 24th February 2009

No. 3/2009 (F.No.6/1275/79/HRD-1/609)—Shri S. K. Prasad, Additional DGFT of this Directorate belonging to the Indian Trade Service, Expired on 18-02-2009.

R. S. BISHT, Dy. Dir. General
of Foreign Trade

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 5th February 2009

No. A-32013/1/2005-Admn.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri M. P. Fulzele as Joint Director in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for a further period w.e.f. 16-11-2008 to 28-02-2009 or until further orders, whichever is earlier.

G. S. BASRAN, Dy. Secy.

No. A-32013/1/2005-Admn.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri R. L. Meena as Joint Adviser in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for a further period w.e.f. 18-01-2009 to 31-07-2009 or until further orders, whichever is earlier.

G. S. BASRAN, Dy. Secy.

The 10th February 2009

Subject : Appointment of Shri Rajendra Kumar, IRS (C&CE:1994), Deputy Secretary as Director

No. A-42011/22/2006-Admn.—In continuation of this Department's notification of even number dated the 4th January, 2008 and in pursuance of the Department of Personnel & Training, Office of the Establishment Officer's O.M. No.13/3/2007-EO MM(I) dated the 30th January, 2009, the President is pleased to appoint Shri Rajendra Kumar, IRS (C&CE:1994), Deputy Secretary as Director in the Department of Public Enterprises, w.e.f. 30-01-2009 (forenoon), as a measure personal to him for the balance period of his tenure, which would now be upto 30-12-2012 or until further orders, whichever is earlier.

G. S. BASRAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 12th February 2009

No. A-32013/2/2008-E.I.—The President is pleased to appoint the following Deputy Secretary of the Central

Secretariat Service (CSS) of the cadre of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, (Department of Food & Public Distribution) on regular basis w.e.f. date mentioned against him :—

Name of Officer	Date of Appointment
Select List 2006	
Shri M. Jayaraman	01-07-2006

SHIV KUMAR GANDOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 31st December 2008

No. MoES/18/9/2008-Estt.—The President is pleased to promote the following Scientist 'D' to Scientist 'E' in the Scale of Pay of Rs. 14,300-400-18,300/- (pre-revised) and PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- (revised) with Grade Pay of Rs. 8,700/- under the Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Promoted to the Grade	Date of promotion
1.	Dr. Praveen Kumar	Scientist 'D'	Scientist 'E'	01-01-2009
2.	Shri Ranjeet Singh	Scientist 'D'	Scientist 'E'	01-01-2009
3.	Shri Saji Mohan Das	Scientist 'D'	Scientist 'E'	01-01-2009
4.	Shri Jung Bahadur	Scientist 'D'	Scientist 'E'	01-07-2009
5.	Shri A. B. Choudhary	Scientist 'D'	Scientist 'E'	01-07-2009

T. R. GILL, Dy. Secy.

No. MoES/18/9/2008-Estt.—The President is pleased to promote the following Scientist 'E' to Scientist 'F' in the Scale of Pay of Rs. 16,400-450-20,000/- (pre-revised) and PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- (revised) with Grade Pay of Rs. 8,900/- under the Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Promoted to the Grade	Date of promotion
1	2	3	4	5
1.	Dr. V. N. Sanjeevan	Scientist 'E'	Scientist 'F'	01-01-2009
2.	Dr. K. Somasundar	Scientist 'E'	Scientist 'F'	01-01-2009

1	2	3	4	5
3.	Shri G. A. Ramdass	Scientist 'E'	Scientist 'F'	01-01-2009
4.	Shri P. Madeshwaran	Scientist 'E'	Scientist 'F'	01-07-2009
5.	Dr. Gopal Iyengar	Scientist 'E'	Scientist 'F'	01-07-2009

T. R. GILL, Dy. Secy.

New Delhi-110003, the 23rd January 2009

No. MoES/18/9/2007-Estt.—The President is pleased to promote the following Scientist 'F' (Rs. 16,400-450-20,000/-) (pre-revised) to the grade of Scientist 'G' (Rs. 18,400-500-22,400/-) (pre-revised) of General Central Service Group 'A' post on in-situ basis under the Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from dates mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	w.e.f
1.	Dr. P. C. S. Devara	12-01-2009
2.	Dr. S. Rajan	12-01-2009

SANDESH SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 3rd February 2009

No. A-12026/1/2008-CPW—In continuation of Ministry of Environment & Forests notification of even no. dated 29th January, 2009, Dr. Sant Prasad Gautam has assumed charge of the post of Chairman, Central Pollution Control Board, Delhi with effect from 02-02-2009 (Forenoon).

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th February 2009

No. A-12025/46/2006-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Manisha to the post of Assistant Professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-Cadre of Central Health Service with effect from the forenoon of 15-11-2007 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/32/2007-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Devender Kumar to the post of Assistant Professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-Cadre of Central Health Service, with effect from the forenoon of 29-01-2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/32/2007-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rachna Agarwal to the post of Assistant Professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-Cadre of Central Health Service, with effect from the forenoon of the 26-06-2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/32/2007-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Seema Singhal to the post of Assistant Professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-Cadre of Central Health Service, with effect from the forenoon of the 10-05-2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)**

New Delhi, the 13th February 2009

No. 32011/9/2008-Estt.II—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri R. K. Tiwari, Assistant Commissioner (NRM/RFS) in the Department of Agriculture and Cooperation to the post of Deputy Commissioner (NRM/RFS) in the Pay Scale of Rs. 12,000-375-16,500/- pre-revised (Pay Band-3; Grade Pay of Rs. 7,600/- revised) in this Department on regular promotion basis w.e.f. 28th January, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

A. K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 16th February 2009

No. A-19011/3/2006-Estt.—Consequent upon his appointment as Director in the Ministry of Defence, New Delhi, Shri Anil Bahuguna, Director, who is on compulsory wait with the Ministry of Panchayati Raj is relieved from the Ministry w.e.f. the forenoon of 16th February, 2009.

L. HAOKIP, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 20th February 2009

No. A-12023/2/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Shri E. Gomathi Nayagam as 1st PA to Minister of Minority Affairs in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 01-12-2008 (FN).

2. The appointment of Shri E. Gomathi Nayagam is on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 25th February 2009

No. A-12023/2/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Shri V. C. Burde as Assistant Private Secretary to Minister of Minority Affairs in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 01-10-2008 (FN).

2. The appointment of Shri V. C. Burde is on deputation on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

K. M. SINGH, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY**

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 19th February 2009

No. PF/2165/NIC/2008-Adm.-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Kranti Kumar Pandey, Emp. Code-2165 from the post of Scientist "C", NIC-Bihar State Unit, Patna with effect from the afternoon of 16th August, 1997 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

**MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 13th February 2009

No. E(GP)2007/3/16—The President is pleased to approve of the undermentioned Group 'B' Officer of the Public Relations Department of Indian Railways, being promoted to officiate as Senior Public Relations Officer in Group 'A'/ Senior Scale on regular basis with effect from 06-01-2009.
PANEL FOR THE YEAR 2008—09

Shri N. Venugopal (SC) (working in Southern Railway)
K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. E(GP)2006/3/7—The President is pleased to approve of the undermentioned 17 Group 'B' Officers of Stores Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 24-12-2008 on the Railways mentioned against each.

PANEL FOR THE YEAR 2007—08

Name of the Officer
S/Shri

P. G. Patil	Central Railway
R. K. Sethy (SC) (Promoted against SC Vacancy)	East Coast Railway
Avaj Singh	North Central Railway
J. B. Singh	North Eastern Railway
R. N. Sinha	(Belongs to DLW)
D. K. Kingra	Northern Railway
Binod Kumar	(Belongs to DMW)
Anil Kumar Saxena	

North Western Railway

Man Singh Meena (ST)
(Promoted against ST Vacancy)

South Eastern Railway

J. N. Hansda (ST)
(Promoted against ST Vacancy)

Southern Railway

Smt. Aleyamma Hezakiel (ST) (Belongs to ICF)

M. Muralidharan

R. Kutty Krishnan (SC) (Belongs to ICF)
(Promoted against SC Vacancy)

S. Gnanadurai (SC) (Belongs to RWF)
(Promoted against SC Vacancy)

Smt. Rani B. (SC)
(Promoted against SC Vacancy)

Western Railway

B. T. Lalge

Mahesh Jethmalani

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

The 20th February 2009

No. E(GP)2006/3/7—The President is pleased to approve of the undermentioned 10 Group 'B' Officers of Stores Department of Indian Railways, being appointed to Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 24-12-2008 on the Railways mentioned against each.

PANEL FOR THE YEAR 2007--08

Name of the Officer
S/Shri

Central Railway

P. K. Dwivedi

Mohd. Ayub

Eastern Railway

S. Dasgupta

A. K. Nandy

D. N. Pandey

S. Dey

Northeast Frontier Railway

Amin Ahmed

S. Saikia

N. N. Kalita

South Western Railway

A. Narayana Naik (ST)

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th February 2008

No. 7/2008. (F.No.2/7/2006-Admn.)—The President is pleased to appoint Shir Gaya Prasad, ISS (95) as Officer on Special Duty to the Hon'ble Minister of State for Water Resources (Shri Jai Prakash Narayan Yadav) at the level of Deputy Secretary in the Pay Scale of Rs. 12,000—16,500/- with effect from the afternoon of 14th February, 2008 for a period of four years or till he ceases to function as OSD to the Minister of State (WR) or until further orders, whichever event occurs the earliest.

N. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 13th February 2009

No. A-32014/1/2007-TCPO/ADMN.III/UD-I—The Competent Authority is pleased to appoint Sh. Hari Lal, Stenographer, Grade-I, Town & Country Planning Organisation as Senior Personal Assistant (GCS Group 'B' Gazetted) in the Town & Country Planning Organisation in the pre-revised Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- corresponding to revised Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,200/- on regular basis with effect from 28-01-2009, or until further orders, whichever is earlier.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 13th February 2009

No. A-19011/01/09-Adm.I—The President is pleased to appoint Sh. Goutam Roy, CPES (87) as Director in the Ministry of Labour & Employment with effect from the afternoon of 30-01-2009 for a normal tenure of 5(five) years or until further orders, whichever is earlier.

PRADEEP GAUR, Under Secy.

The 17th February 2009

No. A-35014/1/2005-Adm.I(Pt.)/Vol.I—The President is pleased to appoint Shri D. Bandopadhyaya, Section Officer of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment as Senior Analyst in Ministry of Labour & Employment in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of five years on deputation basis w.e.f. 02-02-2009 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

PRADEEP GAUR, Under Secy.